



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन 1946 (श0)

(सं0 पटना 955) पटना, बृहस्पतिवार, 3 अक्टूबर 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

1 अक्टूबर 2024

सं० 7/स्था0-04-01/2017-12763/सा०प्र०—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना से परामर्श से बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा), नियमावली, 2019 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2024

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—

- (1) यह नियमावली बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2024 कहलाएगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बाद तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-2(च) का अंतःस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-2(ड) के पश्चात् नियम-2(च) निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाएगा:—

2(च) “स्थायी समिति” से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय नियमावली के अध्याय 1 (भाग I) के नियम 1 के अधीन गठित समिति।

3. बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-34 के ऊपर “प्रकीर्ण” शीर्षक के अंतर्गत नियम-33(क) एवं 33(ख) का अंतःस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम-34 के ऊपर “प्रकीर्ण” शीर्षक के अंतर्गत नियम-33(क) एवं 33(ख) निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जायेगा:—

“प्रकीर्ण”

33(क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो इस संबंध में स्थायी समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

- 33(ख) 'अवशिष्ट शक्तियाँ'।—इस नियमावली की कोई भी बात, समय-समय पर ऐसे आदेश या आदेशों को देने की स्थायी समिति की शक्तियों को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जायेगी, जो इस नियमावली के आनुषांगिक या प्रासंगिक सभी मामलों में उचित समझी जाय और जो इसमें विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं हो या उन विषयों के संबंध में जिनका पर्याप्त रूप से उपबंध नहीं किया हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 1st October 2024

No-7/Astha-04-01/2017-12763/ GAD.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019:-

**The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination),
(Amendment) Rules, 2024**

1. **Short title, extent and commencement.**—
 - (1) These Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) (Amendment) Rules, 2024.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force with immediate effect after publication in official gazette.
2. **The insertion of Rule-2(f) of Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019 (as amended from time to time).**—After Rule-2(e) of the said Rules, Rule-2(f) shall be inserted as follows:-
 - 2(f) **"The Standing Committee"** means the Committee constituted under Rule 1 of chapter 1 (Part I) of the Patna High Court Rules.
3. **The insertion of Rule-33(a) and 33(b) under the heading "Miscellaneous" above the Rule-34 of Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019 (as amended from time to time).**—Above Rule-34 of the said Rules, Rule-33(a) and 33(b) under the heading "Miscellaneous" shall be inserted as follows:-

"Miscellaneous."

 - 33(a) If any question arises as to the interpretation of these Rules, the decision of the Standing Committee in that regard shall be final.
 - 33(b) **'Residuary Powers.**— Nothing in these Rules shall be deemed to affect the powers of the Standing Committee to make such order or orders, from time to time, as it may deem fit in regard to all the matters incidental or ancillary to these Rules and not specifically provided for herein or in regard to matters as have not been sufficiently provided for'.

By the Order of Governor of Bihar,
Ghufran Ahmad,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 955+571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>